

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1626 / 2013 / नागौर

मैसर्स जोगमाया ऑयल इण्डस्ट्रीज,  
मेडतासिटी, नागौर।

.....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
नागौर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री कृष्ण गोपाल खत्री,  
अभिभाषक।  
श्री जमील जई,  
उपराजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 17 / 01 / 2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के अपील संख्या 16/12-13/वैट/नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, नागौर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.2012 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत कुल मांग राशि रुपये 9,27,990/- को यथावत् रखा गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मस्टर्ड शीड व कॉटन शीड को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर कच्चे माल का 35 प्रतिशत अनुपातिक कर योग्य तेल का तथा शेष कर मुक्त काटनशीड केक का निर्माण करता है, तेल के निर्माण में कर मुक्त सह-उत्पाद कॉटनशीड केक (खल) का निर्माण भी होता है। सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत बिक्री विवरण पत्रों के अनुसार कर मुक्त बिक्री 3,46,92,160/- तथा कर योग्य बिक्री 1,46,22,370/- किया जाना माना। अपीलार्थी ने कुल इनपुट 15,14,603/- वलेम किया है इस पर सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 18 के तहत कर मुक्त माल को समानुपातिक सिद्धान्त के आधार पर आगत कर 9,22,432/- रिवर्स करते हुए अस्वीकार किया है, शेष इनपुट 5,92,171/- का लाभ दिया है। इस प्रकार सशक्त अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान देय कर दायित्व 6,19,736/- होना निर्धारित किया है, एवं कम जमा कर राशि 27,565/- व उस पर ब्याज राशि रुपये 5,513/- का आरोपण किया गया है। इस प्रकार सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कुल राशि रुपये 9,27,990/- को जरिये अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने उक्त अपील को अस्वीकार कर दिया।

↓

लगातार.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कच्चे माल के रूप में मस्टर्ड शीड व कॉटन शीड को प्रयुक्त करके मुख्यतः 35 प्रतिशत कर योग्य तेल का उत्पादन किया जाता है, इस पर सह उत्पाद के रूप में खल का निर्माण भी हो जाता है, इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अलग से खल का निर्माण नहीं किया जाता है, तो कच्चे माल कॉटन शीड की खरीद पर चुकाया गया आगत कर पर आई.टी.सी. स्वीकार की जानी चाहिए, एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाया गया रिवर्स टैक्स एवं उस पर आरोपित ब्याज को अपास्त किया जाना चाहिए। आगे उन्होंने सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के निर्णयों का विरोध करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में कहा कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कच्चे माल कॉटन शीड में से 35 प्रतिशत तेल का निर्माण कर शेष 65 प्रतिशत कर मुक्त माल खल का निर्माण किया जाता है। इस पर सशक्त अधिकारी द्वारा इनपुट का समानुपातिक आंकलन किया जाकर आगत कर राशि रूपये 9,22,432/- रिवर्स किया गया है, जो कि नियमानुसार सही है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 को उद्धरित किया है। आगे उन्होंने अपने कथन में कहा कि अपीलीय अधिकारी व सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी ने अधिनियम की धारा 18 के तहत तेल के निर्माण में प्रयुक्त समस्त कच्चे माल की खरीद पर चुकाये गये कर का आईटीसी चाहा है। प्रत्यर्थी के उपराजकीय अभिभाषक ने बताया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के अभिनिर्णय में वेट अधिनियम की धारा 18(1)(g) के विशिष्ट प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित सशक्त अधिकारी द्वारा कच्चे माल गेहूं से निर्मित कर मुक्त माल चौकर की बिक्री की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं होने से रिवर्स टैक्स आरोपण को विधिसम्मत माना गया है।

अधिनियम की धारा 18(1)(g) निम्न प्रकार से है-

**18. Input Tax Credit :-** (1.) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of-

लगातार.....3

(e) being used as raw material [except those as may be notified by the State Government,] in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of Inter-state trade or commerce;

however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section.

7. अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से आलौच्य अवधि के दौरान प्रयुक्त कच्चे माल कॉटन शीड की खरीद पर क्लेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कर मुक्त माल "खल" की बिक्री पर आई.टी.सी. की देयता नहीं मानते हुए इसका रिवर्स टैक्स एवं ब्याज आरोपित किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की गई है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 10.04.2013 में किसी भी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

8. उपरोक्तानुसार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

मदनलाल मालवीय  
(सदस्य)